



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र 1932 (श0)
(सं0 पटना 615) पटना, बुधवार, 25 अगस्त 2010

सं0 15/डी 1-01/09 अंश-I उ0शि0—2441

मानव संसाधन विकास विभाग

संकल्प

6 अगस्त 2010

विभागीय संकल्प संख्या 2374, दिनांक 29 जुलाई 2010 की कडिका-2 में यू0जी0सी0 वेतनमान लागू किये जाने के क्रम में निर्धारित वांक्षनीय तत्व से संबंधित उप-कडिका- (VI) में अंकित तथ्यों के आलोक में वर्ष 2003 में नियुक्त व्याख्याताओं को दिनांक 01 जनवरी 2006 के प्रभाव से यू0जी0सी0 वेतनमान यह अंडरटेकिंग प्राप्त कर अनुमान्य किया जायगा कि अगर किसी सक्षम प्राधिकार या न्यायालय द्वारा उनके चयन (सलेक्शन) को अवैध घोषित किया जाता है तो उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जायगी तथा उनके द्वारा वेतनादि के मद में प्राप्त कुल राशि की वसूली कर ली जायगी। इस बीच संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा वर्ष 2003 में नियुक्त इन शिक्षकों को आवश्यकता के अनुरूप डिग्री स्तरीय स्वीकृत एवं रिक्त पदों पर सामंजित किये जाने की कारवाई सुनिश्चित की जायगी।

2. इसी संकल्प के साथ संलग्न एपेन्डिक्स-2 के क्रम संख्या-4 तथा 5 में कम्प्यूटर दोष एवं मानवीय त्रुटि के कारण उपाचार्य/रीडर एवं प्रोफेसर के पदनाम के वेतनबैंड, एंजी०पी० तथा नया पदनाम निम्न प्रकार से टंकित हो गया है:-

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (रु० में)	पुनरीक्षित वेतनमान (रु० में)		नया पदनाम
			पे बैंड	एंजी०पी०	
4	उपाचार्य/रीडर	12000-420-18300	15600-39100	8000	एसोसिएट प्रोफेसर
5	विश्वविद्यालय प्राचार्य	16400-450-20900-500-22400	37400-67000	9000/12000	प्रोफेसर

3. इस हद तक इस संकल्प की कंडिका-2 की उपकंडिका VI एवं एपेन्डिक्स-2 की तालिका के क्रम संख्या 4 एवं 5 को संशोधित समझा जाय। उक्त तालिका को कंडिका 4, 4A एवं 5 को निम्नरूप में स्वीकृत माना जाय:-

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (रु० में)	पुनरीक्षित वेतनमान (रु० में)		नया पदनाम
			पे बैंड	ए०जी०पी०	
4	उपाचार्य/रीडर	12000-420-18300	15600-39100	8000	रीडर
4A	उपाचार्य/रीडर	12000-420-18300	37400-67000	9000	एसोसिएट प्रोफेसर
5	विश्वविद्यालय प्राचार्य	16400-450-20900-500-22400	37400-67000	10000/12000	प्रोफेसर

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० के० पाठक,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 615-571+1000-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>